



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259826
CG-DL-E-01012025-259826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1069]
No. 1069]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

फा. सं. 18-18/14600—आईएनसी:—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, शांति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू झांसी खजुराओ राष्ट्रीय राजमार्ग, नौगोंग, जिला छतरपुर-471201 (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद् द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सरकार, कमरा संख्या 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन) एरेरा हिल्स, भोपाल-462004, मध्य प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18-18/14600—आईएनसी (52841) दिनांक 26.02.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 26.02.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति शांति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू झांसी खजुराओ राष्ट्रीय राजमार्ग, नौगोंग, जिला छतरपुर-471201 (मध्य प्रदेश) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, शांति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी शांति कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् द्वारा इस मामले पर समग्र विचार किया गया है। चूंकि निरीक्षण के दिन कोई भी नर्सिंग शिक्षण संकाय और छात्र मौजूद नहीं थे, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा अपने पत्रांक 18-18/14600-आईएनसी दिनांक 21.04.2023 के तहत संस्थान को जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए बंद माना गया है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21.05.2024 से शांति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू झांसी खजुराओ राष्ट्रीय राजमार्ग, नौगोंग, जिला छतरपुर-471201 (मध्य प्रदेश) से जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./831/2024-25]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 19th November, 2024

F. No. 18-18/14600-INC:—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Shanti College Of Nursing** situated at **New Jhansi Khajurao National Highway, Nowgong, Distt.- Chhatarpur, Pin Code- 471201, Madhya Pradesh** is recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council to conduct **GNM** Course.

Whereas, a notice no. 18-18/14600-INC (52841) dated **26/02/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal secretary (Health & FW), Government of Madhya Pradesh Room No. 241, Mantralaya (VallabhBhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 26/02/2024 was also enclosed to **Shanti College Of Nursing** situated at **New Jhansi Khajurao National Highway, Nowgong, Distt.- Chhatarpur, Pin Code- 471201, Madhya Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Shanti College Of Nursing**. Even the institution, **Shanti College Of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Indian Nursing Council vide its letter no. 18-18/14600-INC dated 21/04/2023 considered the institution as closed for GNM course as no nursing teaching faculty and students were present on the day of inspection.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of **GNM** from **Shanti College Of Nursing** situated at **New Jhansi Khajurao National Highway, Nowgong, Distt.- Chhatarpur, Pin Code- 471201, Madhya Pradesh**. Shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADV.T.-III/4/Ext.y./831/2024-25]